



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 6—फरवरी 12, 2010 (माघ 17, 1931)
 No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 6—FEBRUARY 12, 2010 (MAGHA 17, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर विधियों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	315	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्रतिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	97	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	377
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	185	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड-4—स्थिधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	183
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	33
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	315	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	97	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	185	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	377
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	183
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	33
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2010

संकल्प

सं. 1/1/2000—न्यायिक एकक (खंड-III)--केन्द्रीय गृह मंत्री ने बलात्कार कानूनों की पुनरीक्षा से संबंधित मुद्दों की जांच करने पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का अनुमोदन किया है।

2. समिति की संरचना निम्नवत होगी :--

1. केन्द्रीय गृह सचिव, अध्यक्ष
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सदस्य
3. सचिव, विधि कार्य विभाग, सदस्य
4. सचिव, विधायी विभाग, सदस्य
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, सदस्य
6. सदस्य सचिव, भारत का विधि आयोग, सदस्य
7. विशेष सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, सदस्य
8. सलाहकार (न्यायिक), गृह मंत्रालय, सदस्य

3. इस समिति को गृह मंत्रालय की ओर से सेवाएं प्रदान की जाएंगी, यह इसे अपेक्षित सुविधाएं और प्रशासनिक/सचिवालयी सेवाएँ भी देगा।

4. इस समिति को अपनी अपेक्षानुसार सदस्य सहयोजित करने और अपनी सहायतार्थ ऐसे परामर्शदाता लगाने की आजादी होगी जैसा यह अनिवार्य समझे। इसके अधिकारियों को टी.ए./डी.ए. संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा दिया जाएगा।

5. यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से चार सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के प्रत्येक सदस्य और सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को भी भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

विनोद कुमार
उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2010

RESOLUTION

No. 1/1/2000-Judl. Cell (vol. III)—The Union Home Minister has approved the constitution of a High Powered Committee to examine/consider the issues relating to review of rape laws.

2. The composition of the Committee will be as under :—

1. Union Home Secretary, Chairman
2. Secretary, Ministry of women and Child Development, Member
3. Secretary, Department of Legal Affairs, Member
4. Secretary, Legislative Department, Member
5. Member Secretary, National Commission for Women, member
6. Member Secretary, Law Commission of India, Member
7. Special Secretary (CS), Ministry of Home Affairs, Member
8. Consultant (Judl.), Ministry of Home Affairs, Member

3. The Committee will be serviced by the Ministry of Home Affairs, which will also provide it requisite facilities and administrative/secretariat support.

4. The Committee will have freedom to co-opt Members according to its requirements and engage such consultants for its assistance as it may consider essential. TA/DA for the officials will be provided by the respective Ministries/Departments/Organizations.

5. The Committee will submit its report within four weeks from the date of its first meeting.

ORDER

ORDERD that a copy of the resolution be communicated to each Member of the Committee and also to the Chief Secretaries of all the State Governments and Union Territory Administrations.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINOD KUMAR
Dy. Secy.